

काव्य के रूप

लेखक

गुलाबराय एम० ए०

इलाहाबाद

सोल एजेण्ट

आत्माराम एण्ड सन्स

साहित्यिक पुस्तकों के विक्रेता

काश्मीरी गेट—दिल्ली ।